

Roll No.-----

Paper Code

2 9 6

(To be filled in the
OMR Sheet)

प्रश्नपुस्तिका क्रमांक
Question Booklet No.

O.M.R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

प्रश्नपुस्तिका सीरीज
Question Booklet Series

B

LL.B (Fifth Semester) Examination, July-2022
(LL.B512)

Land Laws Including Tenure and Tenancy System
(U.P. Land Laws)

(For Regular/Ex/Back Paper)

Time : 1:30 Hours

Maximum Marks-100

जब तक कहा न जाय, इस प्रश्नपुस्तिका को न खोलें

- निर्देश : —**
1. परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक, विषय एवं प्रश्नपुस्तिका की सीरीज का विवरण यथास्थान सही- सही भरे, अन्यथा मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति की दशा में उसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।
 2. इस प्रश्नपुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 75 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों द्वारा दिये जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिये गये हैं। इन चारों में से केवल एक ही उत्तर सही है। जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, अपने उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले या नीले बाल प्वाइंट पेन से पूरा भर दें। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, तो उसे गलत उत्तर माना जायेगा।
 3. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आप के जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
 4. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
 5. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाय।
 6. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी ओ०एम०आर० शीट उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें।
 7. निगेटिव मार्किंग नहीं है।

महत्वपूर्ण : — प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्ष निरीक्षक को दिखाकर उसी सीरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।

K-296

- | | |
|--|--|
| <p>1. How many columns are there in khatauni?</p> <p>(A) 22 columns</p> <p>(B) 14 columns</p> <p>(C) 15 columns</p> <p>(D) 16 columns</p> | <p>1. खतौनी में कितने खाने होते हैं?</p> <p>(A) 22 खाने</p> <p>(B) 14 खाने</p> <p>(C) 15 खाने</p> <p>(D) 16 खाने</p> |
| <p>2. Which body is each Gram Panchayat?</p> <p>(A) Statutory body</p> <p>(B) Corporate body</p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>2. प्रत्येक ग्राम पंचायत कौन सी निकाय होती है?</p> <p>(A) साविधिक निकाय</p> <p>(B) निगमित निकाय</p> <p>(C) (A) और (B) दोनों</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>3. Who is the secretary of the land management committee?</p> <p>(A) Lekhpal</p> <p>(B) Revenue Officer</p> <p>(C) Revenue inspector</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>3. भूमि प्रबंध समिति का सचिव कौन होता है?</p> <p>(A) लेखपाल</p> <p>(B) राजस्व अधिकारी</p> <p>(C) राजस्व निरीक्षक</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>4. Who is defined in section-2 of the U.P. Panchayat Raj Act 1947?</p> <p>(A) Gram Sabha</p> <p>(B) Gram Panchayat</p> <p>(C) Land Management Committee</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>4. उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-2 में किसको परिभाषित किया गया है?</p> <p>(A) ग्राम सभा</p> <p>(B) ग्राम पंचायत</p> <p>(C) भूमि प्रबन्ध समिति</p> <p>(D) उपर्युक्त सभी</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>5. After how many years the Gram Panchayat elections are held?</p> <p>(A) After 5 years</p> <p>(B) After 6 years</p> <p>(C) After 3 years</p> <p>(D) After 7 years</p> | <p>5. ग्राम पंचायत का चुनाव (निर्वाचन) कितने वर्ष बाद होता है?</p> <p>(A) 5 वर्ष बाद</p> <p>(B) 6 वर्ष बाद</p> <p>(C) 3 वर्ष बाद</p> <p>(D) 7 वर्ष बाद</p> |
| <p>6. What is the minimum age to be elected as Pradhan or member of Gram Sabha?</p> <p>(A) 18 years</p> <p>(B) 21 years</p> <p>(C) 25 years</p> <p>(D) 30 years</p> | <p>6. ग्राम सभा के प्रधान या सदस्य के चुने जाने की न्यूनतम उम्र क्या है?</p> <p>(A) 18 वर्ष</p> <p>(B) 21 वर्ष</p> <p>(C) 25 वर्ष</p> <p>(D) 30 वर्ष</p> |
| <p>7. How many duties Gram Panchayat are described in section 15 to the U.P. Panchayat Raj Act 1947?</p> <p>(A) 20</p> <p>(B) 25</p> <p>(C) 30</p> <p>(D) 40</p> | <p>7. उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कर्तव्यों का वर्णन किया गया है?</p> <p>(A) 20</p> <p>(B) 25</p> <p>(C) 30</p> <p>(D) 40</p> |
| <p>8. According to section 12 of the U.P. Panchayat Raj Act 1947, What will be number of Gram Panchayat member in the population U.P. to 1000?</p> <p>(A) 13</p> <p>(B) 14</p> <p>(C) 7</p> <p>(D) 9</p> | <p>8. उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 के अनुसार 1000 तक की जनसंख्या में ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या कितनी होगी?</p> <p>(A) 13</p> <p>(B) 14</p> <p>(C) 7</p> <p>(D) 9</p> |

9. The village fund is generally used for finishing whose functions?

- (A) Gram Sabha
- (B) Gram Panchayat
- (C) Land Management Committee
- (D) All of the above

10. According to which section, there is a consolidated village fund in each district?

- (A) Section 96
- (B) Section 69
- (C) Section 68
- (D) Section 67

11. In which Section provision has been made for standing counsel and other lawyers?

- (A) Section 70
- (B) Section 69
- (C) Section 72
- (D) Section 73

12. According to section 74 of the U.P. Revenue Code 2006, who is tenure holder?

- (A) Bhumidhar with transferable rights
- (B) Bhumidhar nontransferable rights
- (C) Asami
- (D) All of the above

9. गाँव निधि का प्रयोग सामान्यतः किसके कार्यों को सम्पादित करने के लिए किया जाता है?

- (A) ग्राम सभा
- (B) ग्राम पंचायत
- (C) भूमि प्रबन्ध समिति
- (D) उपर्युक्त सभी

10. किस धारा के अनुसार प्रत्येक जिले में एक समेकित गाँव निधि होती है?

- (A) धारा 96
- (B) धारा 69
- (C) धारा 68
- (D) धारा 67

11. स्थायी अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता का किस धारा में प्रावधान किया गया है?

- (A) धारा 70
- (B) धारा 69
- (C) धारा 72
- (D) धारा 73

12. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 74 के अनुसार कौन जोतदार है?

- (A) संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर
- (B) असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर
- (C) आसामी
- (D) उपर्युक्त सभी

13. In which section of the U.P. Revenue Code 2006 the provision of Bhumidhar with transferable rights has been made?

- (A) Section 75
- (B) Section 76
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

14. In which section of the U.P. Revenue Code 2006 the provision of Bhumidhar with non-transferable rights has been made?

- (A) Section 73
- (B) Section 76
- (C) Section 75
- (D) Section 78

15. In which section of the U.P. Revenue Code 2006, Provision has been made regarding "Asami"?

- (A) Section 75
- (B) Section 76
- (C) Section 78
- (D) Section 74

13. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर का प्रावधान किया गया है?

- (A) धारा 75
- (B) धारा 76
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपर्युक्त से कोई नहीं

14. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर का प्रावधान किया गया है?

- (A) धारा 73
- (B) धारा 76
- (C) धारा 75
- (D) धारा 78

15. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में "आसामी" के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है?

- (A) धारा 75
- (B) धारा 76
- (C) धारा 78
- (D) धारा 74

16. Under section 98 of the U.P. Revenue Code 2006, there is a restriction on transfer by Bhumedhor's belonging to a scheduled caste.
- (A) Sale
(B) Gift
(C) Mortgage or lease
(D) All of the above
17. In which section of the U.P. Revenue Code 2006 the provision of "Declaratory suit" has been made?
- (A) Section 144
(B) Section 229 (B)
(C) Section 145
(D) Section 143
18. In which section of the U.P. Revenue Code 2006 provision has been made for "Suit for division of holding?"
- (A) Section 114
(B) Section 116
(C) Section 115
(D) None of the above
16. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 98 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के भूमिधारों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबंध है।
- (A) विक्रय
(B) दान
(C) बन्धक या पट्टे
(D) उपर्युक्त सभी
17. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में "घोषणात्मक वाद" का प्रावधान किया गया है?
- (A) धारा 144
(B) धारा 229 (B)
(C) धारा 145
(D) धारा 143
18. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 कि किस धारा में "जोत के विभाजन के लिए वाद" का प्रावधान किया गया है?
- (A) धारा 114
(B) धारा 116
(C) धारा 115
(D) उपर्युक्त से कोई नहीं

19. In which section of the U.P. Revenue Code 2006, Provision has been made for “Surrender of holding by Bhumidhar”?

- (A) Section 115
- (B) Section 117
- (C) Section 118
- (D) Section 119

20. In which section of the U.P. Revenue Code 2006 provision has been for “Surrender of holding by Asami”?

- (A) Section 118
- (B) Section 117
- (C) Section 120
- (D) Section 119

21. In which section of the U.P. Revenue Code 2006, the provision of abandonment by Bhumidhar has been made?

- (A) Section 122
- (B) Section 120
- (C) Section 123
- (D) Section 124

19. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में “भूमिधर द्वारा जोत का समर्पण” का प्रावधान किया गया है?

- (A) धारा 115
- (B) धारा 117
- (C) धारा 118
- (D) धारा 119

20. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में “आसामी द्वारा जोत का समर्पण” का प्रावधान किया गया है?

- (A) धारा 118
- (B) धारा 117
- (C) धारा 120
- (D) धारा 119

21. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में “भूमिधर द्वारा परित्याग” का प्रावधान किया गया है?

- (A) धारा 122
- (B) धारा 120
- (C) धारा 123
- (D) धारा 124

22. In which section of the U.P. Revenue Code 2006, a provision has been made to "The rent payable by an Asami?"

- (A) Section 139
- (B) Section 138
- (C) Section 140
- (D) Section 141

23. In which section of the U.P. Revenue Code 2006, defined of government lessee?

- (A) Section 146
- (B) Section 148
- (C) Section 147
- (D) Section 149

24. In which section of the U.P. Revenue Code 2006 provision has been made the ejectment of Government lessee?

- (A) Section 148
- (B) Section 146
- (C) Section 150
- (D) Section 149

22. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में "आसामी द्वारा दे लगान" का प्रावधान किया गया है?

- (A) धारा 139
- (B) धारा 138
- (C) धारा 140
- (D) धारा 141

23. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में "सरकारी पट्टेदार" को परिभाषित किया गया है?

- (A) धारा 146
- (B) धारा 148
- (C) धारा 147
- (D) धारा 149

24. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में "सरकारी पट्टेदार की बेदखली का प्रावधान किया गया है?

- (A) धारा 148
- (B) धारा 146
- (C) धारा 150
- (D) धारा 149

- | | |
|--|--|
| <p>25. What is the tax on land called?</p> <p>(A) Agriculture Tax</p> <p>(B) Land Revenue</p> <p>(C) Irrigation Tax</p> <p>(D) Insurance Tax</p> | <p>25. भूमि पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं?</p> <p>(A) कृषि कर</p> <p>(B) भू-राजस्व</p> <p>(C) सिंचाई कर</p> <p>(D) बीमा कर</p> |
| <p>26. In which section of the U.P. Revenue Code 2006, the Land Revenue will be the first charge, provision has been made?</p> <p>(A) Section 163</p> <p>(B) Section 162</p> <p>(C) Section 165</p> <p>(D) Section 164</p> | <p>26. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006, की किस धारा में "भू-राजस्व प्रथम प्रभार होगा" प्रावधान किया गया है?</p> <p>(A) धारा 163</p> <p>(B) धारा 162</p> <p>(C) धारा 165</p> <p>(D) धारा 164</p> |
| <p>27. "Bhumidhars will be jointly and several responsible for the Land Revenue" in which section is the Provision made?</p> <p>(A) Section 162</p> <p>(B) Section 163</p> <p>(C) Section 164</p> <p>(D) Section 165</p> | <p>27. भू-राजस्व के लिए "भूमिधर संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे किस धारा में प्रावधान किया गया है?</p> <p>(A) धारा 162</p> <p>(B) धारा 163</p> <p>(C) धारा 164</p> <p>(D) धारा 165</p> |
| <p>28. In which section provision has been made regarding the land revenue given Bhumidhar?</p> <p>(A) Section 151</p> <p>(B) Section 152</p> <p>(C) Section 153</p> <p>(D) Section 154</p> | <p>28. भूमिधर द्वारा देय भू-राजस्व के सम्बन्ध में किस धारा में प्रावधान किया गया है?</p> <p>(A) धारा 151</p> <p>(B) धारा 152</p> <p>(C) धारा 153</p> <p>(D) धारा 154</p> |

29. What should be the maximum area of Land Revenue under the provision of Section 156 of U.P. Revenue Code 2006?

- (A) 1.26 Hectares
- (B) 1.25 Hectares
- (C) 1.24 Hectares
- (D) 1.23 Hectares

30. In which section provision has been made for remission or suspension of the land on the occurrence of agricultural calamity?

- (A) Section 156
- (B) Section 157
- (C) Section 158
- (D) Section 159

31. Which Land has been exempted for payment of Land Revenue?

- (A) Land occupied by buildings other than improvement
- (B) Graveyards and cremation grounds
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

29. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 156 के प्रावधान के अन्तर्गत भू-राजस्व की छूट के लिए भूमि का अधिकतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए?

- (A) 1.26 हेक्टेयर
- (B) 1.25 हेक्टेयर
- (C) 1.24 हेक्टेयर
- (D) 1.23 हेक्टेयर

30. कृषि विपत्ति होने पर भू-राजस्व में माफी या स्थगन किस धारा में प्रावधान किया गया है?

- (A) धारा 156
- (B) धारा 157
- (C) धारा 158
- (D) धारा 159

31. किस भूमि को भू-राजस्व के भुगतान से छूट प्रदान किया गया है?

- (A) सुधार से भिन्न भवन द्वारा आच्छादित भूमि
- (B) कब्रिस्तान और श्मशान
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

32. Under the provisions of section 154 of the U.P. Revenue Code 2006, when is the land Revenue be paid by the Bhumidhar?

- (A) In the calendar year
- (B) In the financial year
- (C) In the Agricultural year
- (D) In all of the above

33. Who is liable to pay land revenue under section 153 of the U.P. Revenue Code 2006?

- (A) Gram Panchayat
- (B) Bhumidhar
- (C) Gram Sabha
- (D) Gram Pradhan

34. In which section of the U.P. Revenue Code 2006, procedure for recovery of arrears of land revenue has been made?

- (A) Section 174
- (B) Section 172
- (C) Section 170
- (D) Section 171

32. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 154 के प्रावधानों के अधीन भूमिधर के द्वारा भू-राजस्व कब किया जाता है?

- (A) कलैन्डर वर्ष में
- (B) वित्तीय वर्ष में
- (C) कृषि वर्ष में
- (D) उपर्युक्त सभी में

33. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 153 के अधीन भू-राजस्व भुगतान करने का दायित्व किसका होता है?

- (A) ग्राम पंचायत
- (B) भूमिधर
- (C) ग्राम सभा
- (D) ग्राम प्रधान

34. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में भू-राजस्व के बकाये की वसूली हेतु प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है?

- (A) धारा 174
- (B) धारा 172
- (C) धारा 170
- (D) धारा 171

35. In which section of the U.P. Revenue Code 2006, provision for arrest and detention has been made for nonpayment of arrears of land revenue?
- (A) Section 170
(B) Section 172
(C) Section 173
(D) Section 171
36. In which section of the U.P. Revenue Code 2006, provision has been made regarding "Writ Demand"?
- (A) Section 169
(B) Section 166
(C) Section 163
(D) Section 162
37. Under which section the U.P. Revenue Code 2006 provision has been made for "Attachment of holding"?
- (A) Section 172
(B) Section 174
(C) Section 173
(D) Section 170
35. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में भू-राजस्व के बकाया का भुगतान न करने पर गिरफ्तारी और निरोध का प्रावधान किया गया है?
- (A) धारा 170
(B) धारा 172
(C) धारा 173
(D) धारा 171
36. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में "माँग पत्र" से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है?
- (A) धारा 169
(B) धारा 166
(C) धारा 163
(D) धारा 162
37. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन "जोत की कुर्की" के लिए प्रावधान किया गया है?
- (A) धारा 172
(B) धारा 174
(C) धारा 173
(D) धारा 170

38. Under which section of the U.P. Revenue Code 2006, provision has been made for the “sale of holding”?

- (A) Section 174
- (B) Section 175
- (C) Section 176
- (D) Section 177

39. Under which section of U.P. Revenue Code 2006 provision has been made for the “lease of holding”?

- (A) Section 172
- (B) Section 176
- (C) Section 174
- (D) Section 175

40. In which section of the U.P. Revenue Code 2006 the “Revenue court” has been defined?

- (A) Section 4 (16)
- (B) Section 4 (17)
- (C) Section 4 (18)
- (D) Section 4 (19)

38. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन “जोत की बिक्री” का प्रावधान किया गया है?

- (A) धारा 174
- (B) धारा 175
- (C) धारा 176
- (D) धारा 177

39. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन “जोत का पट्टा” का प्रावधान किया गया है?

- (A) धारा 172
- (B) धारा 176
- (C) धारा 174
- (D) धारा 175

40. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में “राजस्व न्यायालय” को परिभाषित किया गया है?

- (A) धारा 4 (16)
- (B) धारा 4 (17)
- (C) धारा 4 (18)
- (D) धारा 4 (19)

- | | |
|--|--|
| <p>41. The jurisdiction of which court is described in section 206 of the U.P. Revenue Code 2006?</p> <p>(A) Civil court</p> <p>(B) Revenue court</p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>41. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 206 में किस न्यायालय की अधिकारिता का वर्णन किया गया है?</p> <p>(A) सिविल न्यायालय</p> <p>(B) राजस्व न्यायालय</p> <p>(C) (A) और (B) दोनों</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>42. In which section of the U.P. Revenue Code 2006 the provision of "First appeal" has been made?</p> <p>(A) Section 206</p> <p>(B) Section 207</p> <p>(C) Section 208</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>42. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में "प्रथम अपील" का प्रावधान किया गया है?</p> <p>(A) धारा 206</p> <p>(B) धारा 207</p> <p>(C) धारा 208</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>43. In which section of the U.P. Revenue Code 2006 the provision of second appeal has been made?</p> <p>(A) Section 206</p> <p>(B) Section 207</p> <p>(C) Section 208</p> <p>(D) Section 209</p> | <p>43. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में "द्वितीय अपील" का प्रावधान किया गया है?</p> <p>(A) धारा 206</p> <p>(B) धारा 207</p> <p>(C) धारा 208</p> <p>(D) धारा 209</p> |
| <p>44. Within how many days will be the period of limitation be for filing the "First appeal"?</p> <p>(A) Within 20 days</p> <p>(B) Within 90 days</p> <p>(C) Within 60 days</p> <p>(D) Within 30 days</p> | <p>44. 'प्रथम अपील' दाखिल किये जाने के लिए परिसीमा की अवधि कितने दिन के भीतर होगी?</p> <p>(A) 20 दिन के भीतर</p> <p>(B) 90 दिन के भीतर</p> <p>(C) 60 दिन के भीतर</p> <p>(D) 30 दिन के भीतर</p> |

- | | |
|---|--|
| <p>45. Within how many days will be the period of limitation be for filing the second appeal?</p> <p>(A) Within 90 days</p> <p>(B) Within 60 days</p> <p>(C) Within 30 days</p> <p>(D) Within 45 days</p> | <p>45. "द्वितीय अपील" दाखिल किये जाने के लिए परिसीमा की अवधि कितने दिन के भीतर होगी?</p> <p>(A) 90 दिन के भीतर</p> <p>(B) 60 दिन के भीतर</p> <p>(C) 30 दिन के भीतर</p> <p>(D) 45 दिन के भीतर</p> |
| <p>46. In which section the Bar against certain appeals in mentioned?</p> <p>(A) Section 208</p> <p>(B) Section 209</p> <p>(C) Section 210</p> <p>(D) Section 211</p> | <p>46. कतिपय अपीलों के विरुद्ध वर्जन किस धारा में वर्णित है?</p> <p>(A) धारा 208</p> <p>(B) धारा 209</p> <p>(C) धारा 210</p> <p>(D) धारा 211</p> |
| <p>47. Under which section the power to call for the records has been given to the revenue court?</p> <p>(A) Section 212</p> <p>(B) Section 211</p> <p>(C) Section 210</p> <p>(D) Section 209</p> | <p>47. राजस्व न्यायालय को "अभिलेख मांगने की शक्ति" किस धारा में प्रदान की गयी है?</p> <p>(A) धारा 212</p> <p>(B) धारा 211</p> <p>(C) धारा 210</p> <p>(D) धारा 209</p> |

48. In which section the board's power of review has been given?

- (A) Section 208
- (B) Section 209
- (C) Section 210
- (D) Section 211

49. In which section provision has been made for the manner of the service of notice?

- (A) Section 216
- (B) Section 215
- (C) Section 214
- (D) Section 213

50. What is the main objective of the U.P. consolidation of holding Act 1953?

- (A) Recovery of Rout
- (B) Development of Agriculture
- (C) Recovery of land revenue
- (D) None of the above

48. परिषद की पुनर्विलोकन की शक्ति किस धारा में प्रदान की गयी है?

- (A) धारा 208
- (B) धारा 209
- (C) धारा 210
- (D) धारा 211

49. सूचना को तामील कराये जाने के रीति को किस धारा में प्रावधान किया गया है?

- (A) धारा 216
- (B) धारा 215
- (C) धारा 214
- (D) धारा 213

50. उ०प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- (A) लगान की वसूली
- (B) कृषि का विकास
- (C) भू-राजस्व की वसूली
- (D) उपर्युक्त से कोई नहीं

51. When was the U.P. Revenue Code 2006 assented to by the President?

- (A) 29 November 2015
- (B) 29 November 2012
- (C) 29 November 2016
- (D) 29 November 2006

52. When were some provisions of U.P. Revenue Code 2006, implemented by the Governor of Uttar Pradesh?

- (A) 18 December 2015
- (B) 18 December 2016
- (C) 18 December 2012
- (D) 18 December 2006

53. On which date the U.P. Revenue Code 2006 was implemented?

- (A) 11 February 2006
- (B) 11 February 2015
- (C) 11 February 2016
- (D) 11 February 2012

54. How many sections are there in U.P. Revenue Code 2006?

- (A) 134 Sections
- (B) 334 sections
- (C) 434 sections
- (D) 234 sections

51. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006, को राष्ट्रपति द्वारा कब अनुमति प्रदान की गयी थी?

- (A) 29 नवम्बर 2015
- (B) 29 नवम्बर 2012
- (C) 29 नवम्बर 2016
- (D) 29 नवम्बर 2006

52. उ०प्र० राज्यपाल द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के कुछ प्रावधान कब लागू किए गये थे?

- (A) 18 दिसम्बर 2015
- (B) 18 दिसम्बर 2016
- (C) 18 दिसम्बर 2012
- (D) 18 दिसम्बर 2006

53. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 को किस तारीख को लागू किया गया था?

- (A) 11 फरवरी 2006
- (B) 11 फरवरी 2015
- (C) 11 फरवरी 2016
- (D) 11 फरवरी 2012

54. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 में कुल कितनी धारायें हैं?

- (A) 134 धारायें
- (B) 334 धारायें
- (C) 434 धारायें
- (D) 234 धारायें

- | | |
|---|---|
| <p>55. How many Schedules are there in U.P. Revenue Code 2006?</p> <p>(A) 3 Schedules</p> <p>(B) 4 Schedules</p> <p>(C) 5 Schedules</p> <p>(D) 6 Schedules</p> | <p>55. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं?</p> <p>(A) 3 अनुसूचियाँ</p> <p>(B) 4 अनुसूचियाँ</p> <p>(C) 5 अनुसूचियाँ</p> <p>(D) 6 अनुसूचियाँ</p> |
| <p>56. What Share of the produce of the land was entitled to the king during the Hindu period?</p> <p>(A) 1/2 part</p> <p>(B) 1/3 part</p> <p>(C) 1/6 part</p> <p>(D) 1/5 part</p> | <p>56. हिन्दू काल में राजा को भूमि की उपज का कितना भाग प्राप्त करने का अधिकार था?</p> <p>(A) 1/2 भाग</p> <p>(B) 1/3 भाग</p> <p>(C) 1/6 भाग</p> <p>(D) 1/5 भाग</p> |
| <p>57. What share of the produce of the land was entitled to the sultan during the Muslim period?</p> <p>(A) 1/2 part</p> <p>(B) 1/4 part</p> <p>(C) 1/6 part</p> <p>(D) 1/3 part</p> | <p>57. मुस्लिम काल में सुल्तान को भूमि की उपज की कितना भाग प्राप्त करने का अधिकार था?</p> <p>(A) 1/2 भाग</p> <p>(B) 1/4 भाग</p> <p>(C) 1/6 भाग</p> <p>(D) 1/3 भाग</p> |
| <p>58. What is mentioned in section-1 of the U.P. Revenue Code 2006?</p> <p>(A) Short title</p> <p>(B) Extent</p> <p>(C) Commencement</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>58. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-1 में क्या उल्लिखित है?</p> <p>(A) संक्षिप्त नाम</p> <p>(B) विस्तार</p> <p>(C) प्रारम्भ</p> <p>(D) उपर्युक्त सभी</p> |

- | | |
|---|--|
| <p>59. How many chapters are there in U.P. Revenue Code 2006?</p> <p>(A) 14 Chapters</p> <p>(B) 15 Chapters</p> <p>(C) 16 Chapters</p> <p>(D) 17 Chapters</p> | <p>59. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 में कुल कितने अध्याय हैं?</p> <p>(A) 14 अध्याय</p> <p>(B) 15 अध्याय</p> <p>(C) 16 अध्याय</p> <p>(D) 17 अध्याय</p> |
| <p>60. What is defined in section 4 (1) of the U.P. Revenue Code 2006?</p> <p>(A) Agriculture</p> <p>(B) Gove land</p> <p>(C) Bank</p> <p>(D) "Abadi" or "Village Abadi"</p> | <p>60. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 4 (1) में क्या परिभाषित किया गया है?</p> <p>(A) कृषि</p> <p>(B) बाग भूमि</p> <p>(C) बैंक</p> <p>(D) "आबादी" या "ग्रामीण आबादी"</p> |
| <p>61. What is included under "Agriculture" as defined in section 4 (2) of the U.P. Revenue Code 2006?</p> <p>(A) Horticulture</p> <p>(B) Animal husbandry</p> <p>(C) Bee Kiping</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>61. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की 4 (2) में परिभाषित "कृषि" के अंतर्गत क्या सम्मिलित है?</p> <p>(A) बागवानी</p> <p>(B) पशुपालन</p> <p>(C) मधुमक्खी पालन</p> <p>(D) उपर्युक्त सभी</p> |
| <p>62. In which section of the U.P. Revenue Code 2006 has been defined as the "Agricultural years"?</p> <p>(A) Sections 4 (23)</p> <p>(B) Sections 4 (32)</p> <p>(C) Sections 4 (33)</p> <p>(D) Sections 4 (43)</p> | <p>62. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में "कृषि वर्ष" को परिभाषित किया गया है?</p> <p>(A) धारा 4 (23)</p> <p>(B) धारा 4 (32)</p> <p>(C) धारा 4 (33)</p> <p>(D) धारा 4 (43)</p> |

63. According to the U.P. Revenue cede 2006, when does the “Agricultural year” Start?

- (A) Form 1st January
- (B) Form 1st July
- (C) Form 1st June
- (D) Form 1st March

64. When does the “Agricultural years” end as per the U.P. Revenue Code 2006?

- (A) 30 April
- (B) 30 May
- (C) 30 June
- (D) 30 July

65. Which of the has been included as “Revenue court” in the U.P. Revenue Code 2006?

- (A) Revenue Board
- (B) Additional collector
- (C) Tahsildar
- (D) All of the above

66. Who has been included as a “Revenue officer” in the U.P. Revenue Code 2006?

- (A) Commissioner
- (B) Collector
- (C) Sub Divisional officer (S.D.O.)
- (D) All of the above

63. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के अनुसार “कृषि वर्ष” कब प्रारम्भ होता है?

- (A) 1 जनवरी से
- (B) 1 जुलाई से
- (C) 1 जून से
- (D) 1 मार्च से

64. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के अनुसार “कृषि वर्ष” कब समाप्त होता है?

- (A) 30 अप्रैल
- (B) 30 मई
- (C) 30 जून
- (D) 30 जुलाई

65. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 में “राजस्व न्यायालय” के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है?

- (A) राजस्व बोर्ड
- (B) अतिरिक्त कलेक्टर
- (C) तहसीलदार
- (D) उपर्युक्त सभी

66. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 में “राजस्व अधिकारी” के रूप में किसे शामिल किया गया है?

- (A) आयुक्त
- (B) कलेक्टर
- (C) उपजिलाधिकारी (S.D.O.)
- (D) उपर्युक्त सभी

67. Which is not included as a "Revenue Court" in the U.P. Revenue Code 2006?

- (A) Revenue Inspector
- (B) Chief Revenue Officer
- (C) Tahsildar
- (D) Naib Tahsildar

68. In which section the "Grove Land" is defined in the U.P. Revenue Code 2006?

- (A) Section 4 (10)
- (B) Section 4 (11)
- (C) Section 4 (12)
- (D) Section 4 (13)

69. On which date the U.P. Zaminadari Abolition and Land reforms Act 1950 was implemented?

- (A) 1 July 1947
- (B) 1 July 1950
- (C) 1 July 1952
- (D) 1 July 1951

70. On which date the U.P. Zaminadari Abolition and Land Reforms Act 1950 has been repealed?

- (A) 11 February 2006
- (B) 11 February 2014
- (C) 11 February 2015
- (D) 11 February 2016

67. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 में "राजस्व न्यायालय" के रूप में किसे शामिल नहीं किया गया है?

- (A) राजस्व निरीक्षक
- (B) मुख्य राजस्व अधिकारी
- (C) तहसीलदार
- (D) नायब तहसीलदार

68. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 में "बाग भूमि" को किस धारा में परिभाषित किया गया है?

- (A) धारा 4 (10)
- (B) धारा 4 (11)
- (C) धारा 4 (12)
- (D) धारा 4 (13)

69. उ०प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 किस तारीख को लागू किया गया था?

- (A) 1 जुलाई 1947
- (B) 1 जुलाई 1950
- (C) 1 जुलाई 1952
- (D) 1 जुलाई 1951

70. उ०प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 किस तारीख को समाप्त कर दिया गया है?

- (A) 11 फरवरी 2006
- (B) 11 फरवरी 2014
- (C) 11 फरवरी 2015
- (D) 11 फरवरी 2016

71. U.P. Revenue Code 2006 was implemented after there pealed of how many Acts?

- (A) 32 Acts
- (B) 39 Acts
- (C) 37 Acts
- (D) 29 Acts

72. Which date is called the “Date of vesting”?

- (A) 1 July 1950
- (B) 1 July 1951
- (C) 1 July 1952
- (D) 1 July 1947

73. Which plants is not considered as “Grove Land”?

- (A) Banana
- (B) Papaya
- (C) None of the above
- (D) Both (A) and (B)

74. The Land Management committee has been established.

- (A) By U.P. Revenue Code 2006
- (B) By U.P. Consolidation of holdings Act 1953
- (C) By U.P. Panchayati Raj Act 1947
- (D) By U.P. Zamindari Abolition and land reforms Act 1950

71. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 को कितने अधिनियमों को रद्द करने के बाद लागू किया गया?

- (A) 32 अधिनियमों
- (B) 39 अधिनियमों
- (C) 37 अधिनियमों
- (D) 29 अधिनियमों

72. किस तारीख को “निहित होने का दिनांक” कहते हैं?

- (A) 1 जुलाई 1950
- (B) 1 जुलाई 1951
- (C) 1 जुलाई 1952
- (D) 1 जुलाई 1947

73. किस वृक्ष को “बाग भूमि” नहीं माना गया है?

- (A) केला
- (B) पपीता
- (C) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (D) (A) और (B) दोनों

74. भूमि प्रबन्ध समिति की स्थापना की गयी है।

- (A) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 द्वारा
- (B) उ०प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 द्वारा
- (C) उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 द्वारा
- (D) उ०प्र० जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 द्वारा

75. In which section of the U.P. Revenue Code 2006, the “Board of Revenue” has been defined?

- (A) Section 4 (3)
- (B) Section 4 (4)
- (C) Section 4 (5)
- (D) Section 4 (6)

76. Where is the “Board of Revenue” located in Uttar Pradesh at present?

- (A) Lucknow
- (B) Allahabad (Prayagraj)
- (C) Both place (A) and (B)
- (D) None of the above

77. Under the U.P. Revenue Code 2006 the function of the board of Revenue are divided in to how many parts?

- (A) Two
- (B) Four
- (C) Six
- (D) Eight

78. How many Presidents are there in U.P. board of Revenue?

- (A) Two
- (B) One
- (C) Three
- (D) Four

75. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में “राजस्व परिषद” को परिभाषित किया गया है?

- (A) धारा 4 (3)
- (B) धारा 4 (4)
- (C) धारा 4 (5)
- (D) धारा 4 (6)

76. वर्तमान समय उ०प्र० में “राजस्व परिषद” कहाँ स्थित है?

- (A) लखनऊ
- (B) इलाहाबाद (प्रयागराज)
- (C) (A) और (B) दोनों स्थान पर
- (D) उपर्युक्त से कोई नहीं

77. उ०प्र० राजस्व संहिता के अधीन राजस्व परिषद के कार्यों को कितने भागों में बाँटा गया है?

- (A) दो
- (B) चार
- (C) छः
- (D) आठ

78. उ०प्र० राजस्व परिषद में कितने अध्यक्ष होते हैं?

- (A) दो
- (B) एक
- (C) तीन
- (D) चार

79. Who is not recognized as a Revenue officer in section 4 (17) of the U.P. Revenue Code 2006?

- (A) Tahsiladar
- (B) Naib Tahsildar
- (C) Lekhpal
- (D) Revenue Inspector

80. According to which section of the U.P. Revenue Code 2006, the Lekhpal is appointed?

- (A) Section 15 (1)
- (B) Section 15 (2)
- (C) Section 16 (1)
- (D) Section 16 (2)

81. Under which service rules does the service of the Lekhpal come?

- (A) U.P. Lekhpal service rules 2006
- (B) U.P. Revenue Code 2006
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

82. Who has been empowered to pass orders for removal of obstacles under section 26 of the U.P. Revenue Code 2006?

- (A) To the Collector
- (B) To the Tahsildar
- (C) To the Naib Tahsildar
- (D) To the Sub Divisional Officer

79. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 4(17) में राजस्व अधिकारी के रूप में किसे मान्यता नहीं दी गयी है?

- (A) तहसीलदार
- (B) नायब तहसीलदार
- (C) लेखपाल
- (D) राजस्व निरीक्षक

80. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अनुसार लेखपाल की नियुक्ति की जाती है?

- (A) धारा 15 (1)
- (B) धारा 15 (2)
- (C) धारा 16 (1)
- (D) धारा 16 (2)

81. लेखपाल की सेवा किस सेवा नियमावली के अर्न्तगत आती है?

- (A) उ०प्र० लेखपाल सेवा नियमावली 2006
- (B) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

82. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 26 के अधीन अवरोध हटाने के लिए आदेश पारित करने की शक्ति किसे प्रदान की गयी है?

- (A) कलेक्टर को
- (B) तहसीलदार को
- (C) नायब तहसीलदार को
- (D) उप जिलाधिकारी को

83. What are the duty of Lekhpal under U.P. Revenue Code 2006?

- (A) Presence in Tahsil
- (B) Report to the Revenue Inspector
- (C) Notice of calamity
- (D) All of the above

84. According to which section does the state Government appointed a collector in each district?

- (A) Section 10 (2)
- (B) Section 10 (1)
- (C) Section 12 (1)
- (D) Section 12 (2)

85. What is the number of documents to be kept by the Lekhpal?

- (A) 25
- (B) 24
- (C) 23
- (D) 22

86. According to the U.P. Revenue Code 2006, which is the smallest unit of Revenue?

- (A) Person
- (B) Family
- (C) Village
- (D) Block

83. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के अर्न्तगत लेखपाल के क्या कर्त्तव्य है?

- (A) तहसील में उपस्थिति
- (B) राजस्व निरीक्षक को सूचित करना
- (C) विपत्ति की सूचना
- (D) उपर्युक्त सभी

84. राज्य सरकार किस धारा के अनुसार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करती है?

- (A) धारा 10 (2)
- (B) धारा 10 (1)
- (C) धारा 12 (1)
- (D) धारा 12 (2)

85. लेखपाल द्वारा रखे जाने वाले कागजात की संख्या कितनी होती है?

- (A) 25
- (B) 24
- (C) 23
- (D) 22

86. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राजस्व की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है?

- (A) व्यक्ति
- (B) परिवार
- (C) गाँव
- (D) ब्लॉक

87. In which section provision has been made regarding the fixation and demarcation of boundaries?

- (A) Section 20
- (B) Section 21
- (C) Section 22
- (D) Section 23

88. Who does settlement disputes regarding boundaries?

- (A) Commissioner
- (B) Sub Divisional Officer
- (C) Collector
- (D) Tahsildar

89. In Which Section of the U.P. Revenue Code 2006 provision has been made regarding the destruction of the boundary mark?

- (A) Section 20
- (B) Section 21
- (C) Section 22
- (D) Section 23

87. सीमा का निर्धारण और सीमांकन के सम्बन्ध में किस धारा में प्रावधान किया गया है?

- (A) धारा 20
- (B) धारा 21
- (C) धारा 22
- (D) धारा 23

88. सीमा सम्बंधी विवादों का निस्तारण कौन करता है?

- (A) आयुक्त
- (B) उपजिलाधिकार
- (C) कलेक्टर
- (D) तहसीलदार

89. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में सीमा चिन्ह को नष्ट किये जाने का प्रावधान किया गया है?

- (A) धारा 20
- (B) धारा 21
- (C) धारा 22
- (D) धारा 23

90. Who has been given the power to prepare and maintain the village list in the U.P. Revenue Code 2006?

- (A) To the Board of Revenue
- (B) To the Commissioner
- (C) To the Additional Collector
- (D) To the Collector

91. In which section of the U.P. Revenue Code 2006. Provision has been made regarding field Book (Khasara)?

- (A) Section 30 (1)
- (B) Section 33 (1)
- (C) Section 13 (1)
- (D) Section 34 (1)

92. In which section of the U.P. Revenue Code 2006. Provision has been made regarding the “Minjumla Number”?

- (A) Section 29 (2)
- (B) Section 30 (2)
- (C) Section 31 (2)
- (D) Section 32 (2)

93. What is “Record of Rights” colloquial Language?

- (A) Khasara
- (B) Minjumla Number
- (C) Khatauni
- (D) Intkhab

90. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 में गाँव की सूची तैयार करने और अनुरक्षित करने की शक्ति किसे प्रदान की गयी है?

- (A) राजस्व परिषद को
- (B) आयुक्त को
- (C) अपर कलेक्टर को
- (D) कलेक्टर को

91. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में क्षेत्र पंजी (खसरा) के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है?

- (A) धारा 30 (1)
- (B) धारा 33 (1)
- (C) धारा 13 (1)
- (D) धारा 34 (1)

92. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में “मिनजुमला संख्या” के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है?

- (A) धारा 29 (2)
- (B) धारा 30 (2)
- (C) धारा 31 (2)
- (D) धारा 32 (2)

93. “अधिकार अभिलेख” का बोल चाल की भाषा में क्या कहते हैं?

- (A) खसरा
- (B) मिनजुमला संख्या
- (C) खतौनी
- (D) इन्तखाब

94. In which section of the U.P. Revenue Code 2006 Provision has been made regarding "Record of Right (Khatauni)"?

- (A) Section 28
- (B) Section 29
- (C) Section 30
- (D) Section 31

95. In how many years will the village list be revised?

- (A) In every Ten years
- (B) In every Five years
- (C) In every Fifteen years
- (D) In every Twenty years

96. In which section of the U.P. Revenue Code 2006, a provision has been made regarding the "Bar Against certain suits?"

- (A) Section 35
- (B) Section 36
- (C) Section 37
- (D) Section 38

94. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के किस धारा में "अधिकार अभिलेख (खतौनी)" के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है?

- (A) धारा 28
- (B) धारा 29
- (C) धारा 30
- (D) धारा 31

95. कितने वर्षों में गाँव की सूची का पुनरीक्षण किया जायेगा?

- (A) प्रत्येक दस वर्ष में
- (B) प्रत्येक पाँच वर्ष में
- (C) प्रत्येक पन्द्रह वर्ष में
- (D) प्रत्येक बीस वर्ष में

96. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के किस धारा में "कर्तव्य वादो का विवर्जन" के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है?

- (A) धारा 35
- (B) धारा 36
- (C) धारा 37
- (D) धारा 38

97. In which section of the U.P. Revenue Code 2006, provisions has been made regarding “Kisan Bahi”?
- (A) Section 38
(B) Section 39
(C) Section 40
(D) Section 41
98. In which section of the U.P. Revenue Code 2006 provision has been made regarding the “Map”?
- (A) Section 28
(B) Section 29
(C) Section 30
(D) Section 31
99. What is meaning of mutation?
- (A) Chang of name of tenure holder in Annual register
(B) Dismissal of a person’s name
(C) Entering another person’s name
(D) All of the above
100. How many columns are there in khasra?
- (A) 22 columns
(B) 23 columns
(C) 24 columns
(D) 25 columns
97. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के किस धारा में “किसान बही” के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है?
- (A) धारा 38
(B) धारा 39
(C) धारा 40
(D) धारा 41
98. उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के किस धारा में “मानचित्र” के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है?
- (A) धारा 28
(B) धारा 29
(C) धारा 30
(D) धारा 31
99. “दाखिल-खारिज” का क्या अर्थ होता है?
- (A) वार्षिक रजिस्टर जोतदार के नाम का परिवर्तन
(B) एक व्यक्ति का नाम खारिज होना
(C) किसी अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज करना
(D) उपर्युक्त सभी
100. खसरा में कितने खाने होते हैं?
- (A) 22 खाने
(B) 23 खाने
(C) 24 खाने
(D) 25 खाने

Rough Work / रफ कार्य

DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL ASKED TO DO SO

1. Examinee should enter his / her roll number, subject and Question Booklet Series correctly in the O.M.R. sheet, the examinee will be responsible for the error he / she has made.
2. **This Question Booklet contains 100 questions, out of which only 75 Question are to be Answered by the examinee. Every question has 4 options and only one of them is correct. The answer which seems correct to you, darken that option number in your Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) completely with black or blue ball point pen. If any examinee will mark more than one answer of a particular question, then the answer will be marked as wrong.**
3. Every question has same marks. Every question you attempt correctly, marks will be given according to that.
4. Every answer should be marked only on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET). Answer marked anywhere else other than the determined place will not be considered valid.
5. Please read all the instructions carefully before attempting anything on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET).
6. After completion of examination, please hand over the O.M.R. SHEET to the Examiner before leaving the examination room.
7. There is no negative marking.

Note: On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly in case there is an issue please ask the examiner to change the booklet of same series and get another one.